

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-६, नौएडा ।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक ०१.१२.२०१९ को ग्राम छलेरा, सैक्टर-०३,०४ (औ०), २३, २४ एवं २५ में सफाईगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की अलग-अलग टीमों बनाकर प्राधिकरण के अन्य विभागों यथा सिविल, उद्यान, जल एवं वि०/याँ० विभाग के अधिकारियों एवं शहरवासियों द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

सैक्टर-२३ एवं २४ में नौएडा के विशेष कार्याधिकारी, इन्दु प्रकाश सिंह, श्री मुकेश कुमार वैश्य, वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल), श्री गौरव बंसल, सहा० परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य), श्री अनोज कुमार आनन्द, प्रबन्धक (वि०/याँ०), श्री राकेश प्रबन्धक (जल) द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इसी प्रकार ग्राम छलेरा में श्री एस० सी० मिश्रा, वरिष्ठ परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य), श्री एस० पी० एस० यादव, वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल), श्री सतेन्द्र, प्रबन्धक, श्री राजेन्द्र सिंह, सहा० निदेशक (उद्यान), श्री एम० के जैन, वरिष्ठ प्रबन्धक (जल), सैक्टर- ३, ४ (औ०) में श्री विजय रावल, परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य), श्री ए० के० सक्सैना, वरिष्ठ प्रबन्धक (वर्क सर्किल), श्री आर० पी० सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक (वि०/याँ०), श्री महेन्द्र प्रकाश, श्री गुरविन्दर सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) एवं सैक्टर-२५ में श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहा० परियोजना अभियन्ता (जन स्वास्थ्य), श्री राहुल शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल-२, श्री अमित, प्रबन्धक (वि०/याँ०), श्री जितेन्द्र कुमार सहा० निदेशक (उद्यान), श्री योगेन्द्र कुमार, प्रबन्धक (जल) एवं ग्रामवासियों, आर०डब्लू०ए० के प्रतिनिधिगणों तथा नौएडा एन्टरप्रिन्योर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहें । कार्यक्रम के दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया तथा लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई ।

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में मैसर्स आदर्श सेवा समिति एवं नौएडा के डोर-टू-डोर कलेक्शन का कार्या देख रही एजेन्सी मैसर्स ए० जी० एन्वायरो द्वारा भी प्रतिभाग किया गया । मैसर्स आदर्श सेवा समिति द्वारा एवं नौएडा प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में शहरवासियों को अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने, सूखे व गीले कचरे को पृथक-पृथक कूड़ेदान में रखने तथा पॉलीथीन का प्रयोग न करने का संदेश दिया गया साथ ही लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण - २०२० में नौएडा के प्रतिभाग करने का संदेश भी दिया गया । मैसर्स ए० जी० एन्वायरो की टीम द्वारा डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन करने के समय से निवासियों को अवगत कराया गया ।